


पाकिस्तान से सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा वापस लिया गया



## अत्यावश्यक 50 विषय प्रीलिम्स 2019 के लिए

क्यों अत्यावश्यक  
विषय श्रृंखला  
महत्वपूर्ण है?

2017 के प्रीलिम्स में, 50 अत्यावश्यक  
विषय श्रृंखला में 9 प्रश्न शामिल थे।

2018 की प्रारंभिक परीक्षा में, 40 अत्यावश्यक  
विषय श्रृंखला में 8 प्रश्न शामिल थे।

2019 के प्रीलिम्स में, .....



Telegram पर अध्ययन सामग्री  
प्राप्त करने के लिए, हमारे चैनल

@UpscPrepMate से जुड़ें

जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें



पुस्तकें खरीदने के लिए



पर क्लिक करें



Whatsapp पर अध्ययन सामग्री प्राप्त  
करने के लिए, अपना नाम और  
शहर Whatsapp नंबर पर भेजें

**75978-40000**

## पाकिस्तान से सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा वापस लिया गया

### सबसे पसंदीदा राष्ट्र (Most Favoured Nation, एमएफएन) दर्जा क्या है?

जब किसी देश को सबसे पसंदीदा राष्ट्र (मोस्ट फेवर्ड नेशन) का दर्जा दिया जाता है तो उसे विशिष्ट व्यापार लाभ दिया जाता है; उदाहरण के लिए आयातित वस्तुओं पर कम शुल्क। विश्व व्यापार संगठन की सिफारिश है कि सभी सदस्य देशों को एक दूसरे को एमएफएन का दर्जा देना चाहिए। यदि कोई देश दूसरे देश के साथ व्यापार बढ़ाने में रुचि रखता है, तो दूसरे देश को यह दर्जा देता है।

### भारत और पाकिस्तान के बीच एमएफएन दर्जा

विश्व व्यापार संगठन के तहत अपने दायित्वों के अनुसार, भारत ने पाकिस्तान सहित सभी विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों को एमएफएन का दर्जा दिया है। 1996 में पाकिस्तान को एमएफएन का दर्जा दिया गया।

हालाँकि, पाकिस्तान ने अभी भी भारत को एमएफएन का दर्जा नहीं दिया है। द्विपक्षीय संबंधों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, भारत द्वारा दिया गया एमएफएन दर्जा वापस नहीं लिया गया है।

### पाकिस्तान द्वारा लगाए गए द्विपक्षीय व्यापार पर प्रतिबंध

मार्च 2012 में भारत से आयात के लिए पाकिस्तान ने "सकारात्मक सूची" से "नकारात्मक सूची" को अपनाया। सकारात्मक सूची (Positive List) में लगभग 1950 उत्पादों के आयात की ही अनुमति थी। दूसरी ओर, नकारात्मक सूची (negative List) में केवल 1,209 उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया जबकि बाकी सभी उत्पादों के आयात की अनुमति दे दी गई। यह आर्थिक संबंधों में एक सकारात्मक बदलाव था। हालाँकि, केवल 138 उत्पाद (15 फरवरी, 2019 तक) वाघा- अटारी बॉर्डर के माध्यम से आयात किए जा सकते हैं।

### भारत-पाकिस्तान व्यापार

पाकिस्तान के साथ भारत का व्यापार काफी कम है। वर्ष 2017 में पाकिस्तान के साथ भारत का व्यापार केवल \$ 2.29 बिलियन था, या भारत के कुल व्यापार का लगभग 0.35% था। पाकिस्तान का भारत को निर्यात उसके आयात का लगभग एक चौथाई है।

### पुलवामा हमले के बाद एमएफएन दर्जा वापस लिया गया

पुलवामा आतंकी हमले के 24 घंटों के भीतर, भारत ने एमएफएन दर्जा वापस ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि एमएफएन दर्जा वापस लेने का मकसद पाकिस्तान को वैश्विक परिदृश्य में

अलग-थलग करना है। भारत का पाकिस्तान के साथ व्यापार भले ही सीमित है लेकिन एमएफएन दर्जा वापस लेने से कुछ पाकिस्तानी उद्योगों जैसे कपास और रसायनों से निर्यात प्रभावित हो सकता है।

एमएफएन दर्जा वापस लेने से भारत के लिए भी कुछ नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। पाकिस्तानी आयात पर निर्भर उद्योगों को नुकसान होगा क्योंकि उन्हें उच्च लागत पर कच्चे माल की खरीद करनी होगी। दोनों देशों के बीच सीमा या अन्य देशों के माध्यम से अवैध व्यापार बढ़ सकता है। साथ ही, भारत के खिलाफ प्रचार करने के लिए पाकिस्तान में चरमपंथी तत्वों द्वारा इस तरह के फैसले को उजागर किया जा सकता है।